

## ग्राहक प्रोफ़ाइल जानकारी

प्रत्येक आवेदक को अलग-अलग ग्राहक प्रोफाइल जानकारी भरनी चाहिए।



Live more,  
Bank less

शाखा का नाम \_\_\_\_\_

शाखा / SOL ID \_\_\_\_\_

☐ व्यक्तिगत ☐ HUF ☐ अन्य \_\_\_\_\_

## ग्राहक की जानकारी

[illegible]

PAN कार्डयाफॉर्म-60 (अगर PAN उपलब्ध नहीं है, कृपया फॉर्म-60 संलग्न करें)

\*पहचान/पते का प्रमाण (निम्नलिखित प्रमाणों में से किसी भी एक की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी जमा करना आवश्यक है)

पासपोर्ट का विवरण

संख्याजारी होने की तारीख

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

समाप्ति की तारीख

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

जारी होने का स्थान

ड्राइविंग लाइसेंसDL समाप्ति की तारीख

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

वोटर ID कार्ड

नरेगा जॉब कार्ड

UID (आधार)

अन्य

पहचान संख्या

(केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज़)

नाम बेमेल होने पर घोषणा

इसके द्वारा पुष्टि किया जाता है कि आवेदन पत्र में दर्ज किया गया मेरा नाम मेरे पास उपलब्ध सहायक दस्तावेज़ मेरे पासपोर्ट/आधार कार्ड/अन्य \_\_\_\_\_ (दस्तावेज़ प्रकार का उल्लेख करें) पर लिखे नाम से भिन्न है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि खाता \_\_\_\_\_ के नाम से खोलें क्योंकि पासपोर्ट/आधार कार्ड/अन्य \_\_\_\_\_ (दस्तावेज़ का उल्लेख करें) के अनुसार मेरा वैध नाम है और भविष्य के सभी पत्राचारों और बैंकिंग लेनदेन के लिए इसे स्वीकार करें। मैं आपके बैंक में खोले गए मेरे बैंक खाते में लेनदेन के लिए मुझे इस भिन्न नाम का उपयोग करने की अनुमति देने के कारण बैंक को हो सकने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देने का वचन देता/देती हूँ।

ग्राहक द्वारा घोषणा

मैं सहमत हूँ कि DBS Bank India Limited (DBS) इस फॉर्म में निहित जानकारी, और DBS Bank India Limited में मेरे खातों और उत्पादों से संबंधित कोई भी जानकारी, लागू कानूनों और विनियमों के संबंध में या उनके अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र में स्थित अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों, सहयोगियों या प्रतिनिधि कार्यालयों को प्रकट और हस्तांतरित कर सकता है। मैं/हम एतद्वारा DBS Bank India Limited को यहां प्रदान की गई मेरी/हमारी किसी भी या सभी डेटा और जानकारी, जिसमें व्यक्तिगत डेटा या मेरे/हमारे खाते से संबंधित कोई भी डेटा या जानकारी (खाता विवरण, लेनदेन, विवरण, जमा राशि, क्रेडिट/डेबिट जानकारी आदि सहित) शामिल है, बैंक को विभिन्न लागू कानूनों, विनियमों और मानकों के तहत, और मुझे/हमें उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में अपने दायित्वों का पालन करने में सुविधा के लिए, क्रेडिट ब्यूरो/क्रेडिट सूचना कंपनियों/नियामक प्राधिकरणों/सांविधिक निकायों/वित्तीय संस्थानों न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों/सरकारी प्राधिकरणों/बैंक के तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं/ऐसे अन्य व्यक्तियों से विनिमय या साझा करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम उपरोक्त उद्देश्य से मेरे/हमारे डेटा और जानकारी का उपयोग या साझा करने के लिए DBS Bank India Limited को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे। "हम एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करते हैं कि यहां प्रदान किया गया डेटा और जानकारी सभी पहलुओं में सत्य, सही, पूर्ण और अद्यतन है और मैंने/हमने किसी भी जानकारी को छुपाया/दबाया नहीं है। मैं/हम सहमत हूँ और समझते हूँ कि हमारे द्वारा दी गई कोई भी सूचना झूठी या किसी सारभूत तथ्य को रोकना/दबाना पाए जाने पर मेरे खाते को निलंबित या बंद कर दिया जाएगा और मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। हम हमारे संचार पते/मोबाइल नंबर में कोई भी बदलाव होने के संबंध में हर समय बैंक को ऐसे रूप में उपयुक्त प्रमाणों के साथ सूचित रखेंगे, जैसा कि बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है और एतद्वारा मेरे संचार विवरण में मेरे/हमारे द्वारा सूचित किए जा सकने वाले ऐसे किसी भी बदलाव को अद्यतन करने के लिए बैंक को अधिकृत करते हैं। मैं/हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे कि बैंक को संचार के लिए सही संचार विवरण सूचित किया गया है। मैं/हम एतद्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग, गलत संचार विवरण प्रदान करने में मेरी/हमारी गलती या संचार विवरण में किसी बदलाव या संसोधन के बारे में सूचना देने में विफलता के कारण होने वाली किसी भी धोखाधड़ी या DBS Bank India Limited को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की DBS Bank India Limited को क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं। उपरोक्त नामित खाता धारक की ओर से हस्ताक्षर करने वाले माता-पिता/अभिभावक/न्यासी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए: मैं आश्वासन देता हूँ कि मुझे इस प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार है और या तो DBS Bank India Limited द्वारा इस प्रमाणीकरण के उद्देश्य से खाता धारक के व्यक्तिगत डेटा के इस संग्रह, उपयोग, प्रकटीकरण और प्रसंस्करण के लिए उसकी ओर से सहमति देने की सहमति प्राप्त कर ली है या ऐसा करने का मुझे अधिकार है।



फोटो पर आरपार हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान: \_\_\_\_\_ दिनांक: 

D

D

M

M

Y

Y

Y


Y

दस्तावेज़ जांचसूची

नीचे सूचीबद्ध आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेजों (OVD) में से कोई भी पते के प्रमाण और पहचान के प्रमाण के लिए प्रदान किया जाना चाहिए (OVD पर पता उपलब्ध न होने पर दो अलग-अलग दस्तावेज़ लिए जा सकते हैं)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>टिप्पणियाँ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>कृपया बैंक के रिकॉर्ड के समान हस्ताक्षर करें।</li><li>अंगूठे का निशान बैंक के कर्मचारियों की उपस्थिति में लगाया जाना चाहिए।</li><li>अगर आप इस फॉर्म पर हस्ताक्षर किसी व्यक्ति की ओर से कर रहे हैं (माता-पिता/अभिभावक/न्यासी/अधिकृत प्रतिनिधि), कृपया अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के आगे अपना नाम और NRIC/पासपोर्ट संख्या भी दर्ज करें।</li><li>फॉर्म पर प्रत्येक आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाया जाना और उसके उपर आवेदक को हस्ताक्षर करना चाहिए।</li><li>कृपया सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाणों की फोटोकॉपी स्पष्ट और पठनीय है। सभी फोटोकॉपी आवेदक (ओं) द्वारा स्व-सत्यापित होनी चाहिए।</li><li>* प्रदान की जाने वाली अनिवार्य जानकारी को दर्शाता है</li><li>खाता खोलना DBS Bank India Limited के खाता नियमों और शर्तों और RBI के लागू दिशानिर्देशों के तहत है। केवल बैंक की नीति और आवश्यकता के अनुसार मान्य दस्तावेज़ ही खाता खोलने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। जांचसूची में उल्लिखित पर्याप्त दस्तावेज़ के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रसंस्करण में देरी हो सकती है।</li></ol> | <p><b>ID प्रूफ़:</b> कानूनी नाम और इस्तेमाल किए गए अन्य नाम।</p> <p><b>हस्ताक्षर:</b> ऐसे मामलों में जहां ID प्रूफ़ में हस्ताक्षर नहीं है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा बैंकों के हस्ताक्षर का सत्यापन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p><b>पते का प्रमाण:</b> आवासीय और/या स्थायी पते का प्रमाण अनिवार्य है</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पासपोर्ट</li><li>ड्राइविंग लाइसेंस</li><li>भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र</li><li>राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड</li><li>भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या का विवरण हो</li><li>RBI द्वारा वर्णन की गई प्रक्रिया के अनुसार E-KYC</li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## खाता खोलने से जुड़ी जानकारी



कृपया इस खाता खोलने के फॉर्म को बड़े अक्षरों में भरें और अगर फॉर्म में कोई भी सुधार/ओवरराइटिंग करें तो उसपर अपना हस्ताक्षर जरूर करें। फॉर्म को जमा करने से पहले कृपया उसके सभी खाली अनुभागों को लकीर खींच कर काट दें।

बैंक द्वारा उपयोग के लिए

शाखा का नाम: \_\_\_\_\_ शाखा/SOL आईडी: \_\_\_\_\_ स्कीम कोड: \_\_\_\_\_

## चुना गया उत्पाद

खाता का प्रकार चुनें ☐ बचत ☐ चालू उत्पाद का प्रकार: \_\_\_\_\_ प्रस्तुत करने का दिनांक: 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### संचालन का तरीका

☐ एकल ☐ संयुक्त रूप से ☐ सभी या उत्तरजीवी ☐ कोई भी एक या उत्तरजीवी ☐ पूर्व या उत्तरजीवी ☐ अन्य (कृपया विवरण दें) \_\_\_\_\_

### आवेदक का विवरण

[illegible]

### शुरुआती चेक के भुगतान का विवरण

| आहरण बैंक | बैंक शाखा | चेक नंबर | राशि ₹ |
|-----------|-----------|----------|--------|
|           |           |          |        |

राशि शब्दों में: \_\_\_\_\_

## आवश्यक सेवाएं

### 1) Debit Card आवेदन#

[illegible]

(Debit Card पर लिखा नाम  
खाली स्थान सहित 20 वर्णों से  
अधिक का नहीं होना चाहिए)

#रुध्यान दें : अपना मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय करने के लिए आपको अपने Debit Card की आवश्यकता होगी

2) चेक बुक सुविधा ☐ हाँ ☐ नहीं      3) ईमेल से बैंक स्टेटमेंट पंजीकृत ईमेल आईडी पर ☐ हाँ ☐ नहीं      4) एसएमएस अलर्ट ☐ हाँ ☐ नहीं

**अन्य उत्पादों और प्रस्तावों के बारे में जानकारी**

मैं/हम टेलीफोन कॉल, सभी प्रकार के माबाइल/प्लेटफॉर्म मैसेजिंग (एसएमएस या MMS या व्हाट्सएप, आदि सहित), फैक्स, ईमेल और/या डाक के माध्यम से DBS Bank India Limited से सामग्रीयां और सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहते हूँ। मैं/हम, DBS Bank India Limited को यहाँ प्रस्तुत व्यक्तिगत डेटा सहित मेरे/हमारे किसी भी या सभी डेटा और जानकारी को DBS Bank के सहयोगियों, सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ आदान-प्रदान या साझा करने के लिए, जिसे DBS Bank India Limited मुझे/मैंम विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग और क्रॉस-सेलिंग के उद्देश्य से आवश्यक समझ सकता है, उन व्यक्तियों द्वारा उस डेटा/सूचना का प्रसंस्करण और उपयोग करने, या उस संसाधित डेटा/सूचना को अन्य व्यक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो सकता है, अधिकृत करता हूँ/करते हैं, तथा मैं/हम इस डेटा/सूचना को साझा करने या उपयोग करने या किसी भी अन्य चीज के लिए DBS Bank India Limited को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगी।

पहला आवेदक के हस्ताक्षर

दूसरा आवेदक के हस्ताक्षर

तीसरा आवेदक के हस्ताक्षर

**पावती पर्ची (ग्राहक को सौंपी जानी है)**

हम पुष्टि करते हैं कि हमें आपका ☐ बचत खाता खोलने का आवेदन फॉर्म ☐ DBS निवेश सेवा फॉर्म प्राप्त हो गया है।

आपके खाता खोलने के अनुरोध के संबंध में नियमों और शर्तों, विशेषताओं और शुल्कों के बारे में हमारे रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा आपको समझा दिया गया है।

नामांकन फॉर्म प्राप्त हुआ ☐ हाँ ☐ नहीं

आपका खाता KYC जांच और शुरुआती भुगतान चेक क्लियर होने के बाद खोला जाएगा।

रिलेशनशिप मैनेजर का विवरण:

नाम \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_ दिनांक: 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, की धारा 452A और बैंकिंग कंपनीज (नामांकन) नियम, 1985, के नियम 2(1) के तहत बैंक जमा के संबंध में नामांकन

☐ मैं एक नामांकन दर्ज करना चाहता/चाहती हूँ (नीचे दिए गए खंड A और खंड B भरें)

☐ मैं कोई नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती हूँ (सीधे नीचे दिए गए खंड B पर जाएं)

नामिनी का नाम खाता विवरण में मुद्रित किया जाएगा ☐ हाँ ☐ नहीं

#### खंड A

मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति को अपना नामिनी बना रहे हैं, जिसे मेरे/हमारे/नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में, DBS Bank India Limited द्वारा खाते में जमा राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, वापस किया जा सकता है।

#### नामिनी

| नामिनी का नाम | नामिनी का पता | जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो | जन्म का दिनांक |
|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
|               |               |                                   |                |

\*चूंकि नामिनी इस तिथि को अवयस्क है, इसलिए मैं/हम नामिनी की अवयस्क आयु के दौरान ही मेरे/हमारे/नाबालिग की मृत्यु हो जाने की स्थिति में श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम) (जन्म तिथि) (पता)

को नामिनी की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

#### खंड B

पहला आवेदक के हस्ताक्षर\*\*\*

दूसरा आवेदक के हस्ताक्षर\*\*\*

तीसरा आवेदक के हस्ताक्षर\*\*\*

| गवाह 1          |
|-----------------|
| नाम _____       |
| पता _____       |
| _____           |
| हस्ताक्षर _____ |
| दिनांक _____    |

| गवाह 1          |
|-----------------|
| नाम _____       |
| पता _____       |
| _____           |
| हस्ताक्षर _____ |
| दिनांक _____    |

\* अगर जमा खाता नाबालिग व्यक्ति के नाम से है, तो नामांकन पर हस्ताक्षर नाबालिग की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

\* अगर खाता धारक अवयस्क नहीं हैं तो इसे काट दें।

\*\*\* अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। हस्ताक्षर के मामले में किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। एक खाता में केवल एक ही व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है।

^ जबकि नामांकन सुविधा वैकल्पिक है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप इसका उपयोग जरूर करें।

### संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता/कर निवास स्थिति होने पर स्व प्रमाणन और सामान्य रिपोर्टिंग मानक\* केवल व्यक्ति

#### पहला आवेदक

कर निवास स्थिति - USA (कृपया केवल एक बॉक्स पर टिक [✓] का निशान लगाएं)  
यूएस संघीय आयकर उद्देश्य के लिए, मैं निवेदन करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि:

☐ मैं एक अमेरिकी नागरिक<sup>1</sup> / कर निवासी<sup>2</sup> / ग्रीन कार्ड धारक नहीं हूँ।  
कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान करें:

- गैर-अमेरिकी पासपोर्ट की प्रति; या
- गैर-अमेरिकी सरकार द्वारा जारी पहचानपत्र।

इसके अतिरिक्त, यदि आप यूएस में पैदा हुए हैं, तो कृपया निम्नलिखित प्रदान करें:

- अमेरिका की नागरिकता खत्म होने के प्रमाण पत्र की प्रति; या
- एक उचित स्पष्टीकरण कि आपके पास ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं है:

\_\_\_\_\_

☐ मैं एक अमेरिकी नागरिक<sup>1</sup> / कर निवासी<sup>2</sup> / ग्रीन कार्ड धारक हूँ।  
कृपया अपना यूएस करदाता पहचान संख्या (TIN)<sup>3</sup> या सामाजिक सुरक्षा नंबर (SSN) प्रदान करें।

\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-

☐ मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं अब यूएस का नागरिक नहीं रह गया/गई हूँ<sup>1</sup>

कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान करें:

- गैर-अमेरिकी पासपोर्ट की प्रति; या
- निम्नलिखित में से कोई एक:
  - अमेरिका की नागरिकता खत्म होने के प्रमाण पत्र की प्रति; या
  - I-407 फॉर्म; या
  - एक उचित स्पष्टीकरण कि आपके पास ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं है:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### दूसरा आवेदक

कर निवास स्थिति - USA (कृपया केवल एक बॉक्स पर टिक [✓] का निशान लगाएं)  
यूएस संघीय आयकर उद्देश्य के लिए, मैं निवेदन करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि:

☐ मैं एक अमेरिकी नागरिक<sup>1</sup> / कर निवासी<sup>2</sup> / ग्रीन कार्ड धारक नहीं हूँ।  
कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान करें:

- गैर-अमेरिकी पासपोर्ट की प्रति; या
- गैर-अमेरिकी सरकार द्वारा जारी पहचानपत्र।

इसके अतिरिक्त, यदि आप यूएस में पैदा हुए हैं, तो कृपया निम्नलिखित प्रदान करें:

- अमेरिका की नागरिकता खत्म होने के प्रमाण पत्र की प्रति; या
- एक उचित स्पष्टीकरण कि आपके पास ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं है:

\_\_\_\_\_

☐ मैं एक अमेरिकी नागरिक<sup>1</sup> / कर निवासी<sup>2</sup> / ग्रीन कार्ड धारक हूँ।  
कृपया अपना यूएस करदाता पहचान संख्या (TIN)<sup>3</sup> या सामाजिक सुरक्षा नंबर (SSN) प्रदान करें।

\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-

☐ मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं अब यूएस का नागरिक नहीं रह गया/गई हूँ<sup>1</sup>

कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान करें:

- गैर-अमेरिकी पासपोर्ट की प्रति; या
- निम्नलिखित में से कोई एक:
  - अमेरिका की नागरिकता खत्म होने के प्रमाण पत्र की प्रति; या
  - I-407 फॉर्म; या
  - एक उचित स्पष्टीकरण कि आपके पास ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं है:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Live more,  
Bank less

ग्राहक सेवा (24x7): इंडिया हेल्पलाइन (टोल नंबर) : 1860 267 1234  
इन्टरनेशनल हेल्पलाइन : +91 44 6685 4555  
सिंगापुर से (केवल) : 800 852 6186

ईमेल: customercareindia@dbs.com | हमसे यहाँ मिलें: www.dbsbank.in

कर निवासी स्थिति – भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य देश

□ मैं भारत का कर निवासी<sup>2</sup> हूँ। □ मैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश का कर निवासी<sup>2</sup> हूँ।

□ मैं भारत का कर निवासी<sup>2</sup> हूँ और \_\_\_\_\_ (कृपया विवरण दें)

कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान करें: ☐ पासपोर्ट की कॉपी; या ☐ सरकार द्वारा जारी पहचानपत्र

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर निवास का देश <sup>2</sup> | कर पहचान संख्या (TIN) <sup>3</sup> या यदि TIN उपलब्ध नहीं है, तो कोई समकक्ष दस्तावेज, कारण* और स्पष्टीकरण B दर्ज करें                                                                                                                                                  |
|                              | <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ ] A [ ] B [ ] C _____</span> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
|                              | <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ ] A [ ] B [ ] C _____</span> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
|                              | <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ ] A [ ] B [ ] C _____</span> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |

C – T1N की आवश्यकता नहीं है। (नोट: इस केवल तभी चुनना चाहिए जब संबंधित क्षेत्र के घरलू कानून में उस क्षेत्र द्वारा जारी किया गया T1N मांगना आवश्यक नहीं होता है)।

- यदि आपका आवेसीय पता आपके कर निवास के देश/क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित बॉक्स में टिक का निशान लगा कर इस बात की पुष्टि करें:
- ☐ मैं उस देश (देशों) का कर निवासी नहीं हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। इस बॉक्स में टिक लगा करके, मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं ऊपर घोषित किए गए देशों के अलावा किसी अन्य देश का कर निवासी नहीं हूँ।
  - ☐ उपरोक्त पुष्टि के बजाय मैं, DBS Bank India Limited को आपके खाते की जानकारी के आधार पर कर प्राधिकरण को प्रकट करनी पड़ सकती है। इसके अलावा, हो सकता है कि आप हमारे बैंक में अतिरिक्त खाते खोलने या हमसे निवेश खरीदने में सक्षम न हों।

टिप्पणियाँ

C) <sup>3</sup>A TIN अक्षरों या संख्याओं का एक अनुूठा संयोजन है जिस किसी क्षेत्र द्वारा किसी व्यक्ति को आवंटित किया जाता है और उस क्षेत्र के कर कानूनों को प्रशासित करने के उद्देश्य से व्यक्ति की पहचान करने में उपयोग किया जाता है।

**ध्यान दें:** आवेदकों की संख्या 2 से अधिक होने की स्थिति में कृपया अन्य आवेदकों के लिए भी FATCA फॉर्म अलग से जमा करें।

नियम एवं शर्तें

**नर्वेनस / रिलेशनशिप वैल्यू आवश्यकता (MAB, AQB, TRV):** मैं / हम घोषणा और पुष्टि करते हैं कि मुझे / हमें खाता खोलने / बनाए रखने के लिए मासिक औसत शेष (MAB) / औसत निमाही शेष (AQB) / टोटल रिलेशनशिप वैल्यू (TRV) की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया है और समझता / हूँ / समझती हूँ कि इन आवश्यकताओं में बैंक अपने विवेक से कभी भी संशोधन / परिवर्तन कर सकता है। मैं बैंक इन संशोधनों को बैंक की वेबसाइट पर या बैंक की शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर सकता है और यह पर्याप्त नोटिस होगा और यह संशोधन मुझे / हमें स्वीकार्य होगा। मैं समझता / हूँ / हम समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई सहमति के अनुसार मुझे / हमें MAB/AQB/TRV को बनाए रखना जरूरी है और यदि मैं / हम ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो बैंक शुल्क अनुसूची में दर्शाया गया शुल्क / प्रभार वसूल करने का हकदार होगा।

**Debit Card:** मैं/हम घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने DBS Bank India Limited ("बैंक") की वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक के Debit Card और बैंक के Debit Card से संबंधित अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की सीमा से जुड़े नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, जिसमें शामिल हैं/जमाओं के संवाचना/आवरण से संबंधित बैंक के टैरिफ की शानित हैं। लेकिन इतनी तक सीमित नहीं है, और उसके साथ-साथ साथ-साथ समय-समय पर लागू हो सकने वाले किसी अन्य नियमों का भी पालन करने के लिए बाध्य और सहमत हूँ/हैं। मैं/हम बैंक के अंतराष्ट्रीय/परन्तु Debit Cards के लिए लागू शुल्कों/प्रभारों से अवगत हूँ/हैं। मैं/हम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक के अंतराष्ट्रीय/परन्तु Debit Cards के लिए समय-समय पर लागू संशोधित शुल्कों/टैरिफ से बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम अपने Debit Card की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और इसके संबंध में बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं करने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम पुष्टि करते हैं और समझते हैं कि बैंक में मेरे/हमारे खाते स्वाचालित रूप से मेरे/हमारे Debit Card से जुड़े होंगे, जब तक कि मैं/हमारे खाते को डीलिट करने का निर्देश करने को स्वीकार्य रूप में बैंक के लिए दिया गया है। मैं/हम अपने/हमारे Debit Card का PIN बैंक के रिजॉर्ड में दर्ज मेरे/हमारे पते पर मेरे/कृपियर करने का निर्देश बैंक के दिया है। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि Debit Card का PIN प्राप्त न होने और/या किसी अनधिकृत तीसरे व्यक्ति को प्रकट हो जाने का जोखिम पूरी तरह से मेरा/हमारा होगा और इसके संबंध में बैंक का भी दायित्व नहीं होगा। ध्यान दें: आपको अपने मोबाइल बैंकिंग/ईटलेनेट बैंकिंग को सक्रिय करने के लिए अपने Debit Card की आवश्यकता होगी। Debit Card पर नामांकन, जहाँ लागू हो, बचप/खाते में दिए गए नामांकन के अनुरार होगा।

**इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग:** मैं/ हम एतद्वाचा पृष्ठ करते हैं कि मैंने/ हमने DBS Bank India Limited ('बैंक') की इंटरनेट बैंकिंग ('IB')/मोबाइल बैंकिंग ('MB') सेवाओं के लिए आवेदन किया है और एतद्वाचा सहमत हूँ/ हैं कि बैंक द्वारा IB/MB सेवाएं प्रदान/ करेंगी/ करेंगी। मैं/ हम समझता/ समझते हूँ कि बैंक IB/MB सेवाओं को भारत में बैंक की किसी भी शाखा में बैंक की वेबसाइट [www.dbsbank.in](http://www.dbsbank.in) पर उपलब्ध है/ हैं और मैं/ हम एतद्वाचा घोषणा करता/ करती हूँ कि मैंने/ हमने उन नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और इसी प्रकार सहमत हूँ/ हैं। मैं/ हम सहमत हूँ और समझते हूँ कि बैंक बिना कोई कारण बताए IB/MB के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मैं/ हम सहमत हूँ कि किसी अनधिकृत तृतीय पक्ष को सुरक्षा कोड प्रदान हो जाने के परिणामस्वरूप मुझे/ हमें होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। मैं/ हम इस बात से सहमत हूँ कि यदि बैंक में मेरा/ हमारा एक संचालित खाता है (जहां संचालित का तात्पर्य एकल/ दोनो में से एक या उत्तरजीवियों/ दोनो में से कोई भी या उत्तरजीवियों के दो ऐसे समूह या उत्तरजीवियों के से मेरी/ हमारी यूजर आईडी से जुड़े होंगे) और मैं/ हमने इनका उपयोग करने के आधार पर किसी भी जुड़े हुए खाते से डेबिट होने के लिए मैं/ हम पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और मैं/ हम इससे भी सहमत हूँ/ हैं कि इसका लिए बैंक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और इस संबंध में बैंक के खिलाफ कोई दावा या मॉनो नहीं होगा। मैं/ हम सहमत हूँ कि बैंक IB/MB के लिए लागू शुल्कों/ प्रमारों से अवगत हूँ/ हैं। मैं/ हम एतद्वाचा सहमत हूँ कि वेबसाइट पर उपलब्ध IB/MB सेवाओं के लिए समझ-समय पर लागू संशोधित शुल्कों/ प्रमारों से बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/ हैं। नोट: कृपया ध्यान दें कि मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए, ग्राहक को पास DBS Bank की Debit Card होना आवश्यक है।

**एसएमएस अलर्ट:** मैं/हम समझते हैं कि एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए शुल्क लिया जाता है और इन शुल्कों/प्रभारों में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है। ये संशोधन बैंक की वेबसाइट/टैरिफ शेड्यूल में प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे और मुझे/हमें स्वीकार्य होंगे।

**सहायक ऑफ़र के लिए समझें:** DBS Bank India Limited में हमने हमारे आपकी बेहतर सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नियमित प्रश्नार्थों के साथ-साथ आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल किसी भी उत्तरार्थ और सेवाओं के बारे में जानकारी से आपको एक-दूसरे के बीच बढ़ा सुनिश्चित करने का हमारा एक तरीका है। अगर आप हमें मोबाइल मैसेजिंग या टेलीफोन कॉल के माध्यम से हमें मॉनिटरिंग सामग्री और जानकारी प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप हमें मोबाइल संदेश या कॉल केवल तभी प्राप्त करेंगे जब आपका नंबर नेशनल टू-नॉ-कॉल रजिस्टर में नहीं होगा। यहाँ ऊपर लिखी गई किसी भी बात के होते हुए भी, भले ही आप 'द टू नॉट डिस्टर्ब' सूची में शामिल हों, आप हमसे कुछ संचार (ईमेल/एसएमएस/कॉल आदि) निम्नलिखित कारणों से प्राप्त कर सकते हैं: a) आपके द्वारा लिखित या मौखिक संचार से DBS Bank India Limited से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में। b) DBS Bank India Limited को प्रस्तुत किए गए किसी भी अवसर में आपके द्वारा किए गए विवरणों को सत्यापित करने के लिए किए गए कॉल। c) कोई भी अनियमित लेनदेन दिखाई देने की स्थिति में क्रेडिट जॉच या कार्ड के दुरुपयोग से संबंधित जांच करने के लिए किए गए कॉल। d) ईस्टर्न बैंकिंग पासवर्ड/स्ट्रेटिक बैंक में बदलाव के लिए की गई जांच।

**प्रश्न के माध्यम से स्टेटमेंट और एवार्ड्स मेजने का प्राधिकार** - हम सभी में उत्तिष्ठित ईश्वर आंदी हैं। मैं कुछ भी जोड़ने/ हटाने की सूचना बैंक को लिखित रूप में ही जापूरी, जिस पर अकाउंट मंड्रीट के अनुसार निदेश देने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया होगा। इन परिस्थतियों परिवर्तनों में वहां न्यायिक्त किए गए सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। हम एक एवार्डस लाइमिटेड (DPS Bank India Limited) को खाता खोलने के फॉर्म में उत्तिष्ठित जीकेईटी ईमेल आंदी पर खाता का स्टेटमेंट/ एवार्डस प्रमाण पत्र के लिए अधिकृत करते हैं। मैं /हम जानते हैं कि ईमेल संचार का सुरक्षा या गुटि मुक्त माध्यम नहीं है और मैं /हम ईमेल के माध्यम से सूचना के प्रसारण के संबंध में शामिल संभावित जोखिमों से अवगत हूं/हैं। मैं /हम सहमत हूं और स्वीकार करते हैं कि बैंक ईमेल संदेशों का सामग्री में किसी भी सूचना या चक्र के लिए कोई भी दायित्व स्वीकार नहीं करता है। मैं /हम आपको हर समय, आपके खिलाफ सभी कार्रवाईयां, कानूनी सुनुवायों, दावां, क्षतिपूर्ति, क्षतिगांत और खचों से हानिनिहित रखने और बचाने का बचन देना/देती हूं, जिससे वे परिणामी नुकसान/ क्षतियां भी शामिल है जिनका आपको ईमेल के माध्यम से हमें ऊपर उल्लिखित विवरण मेजने के संबंध में या उसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ सकता है।

**बैंक द्वारा घोषणा:** मैं/हम, उपर्युक्त छाता खोलना चाहते हैं। मैं/हम घोषणा और पत्रिक करते हैं कि मैंने/हमने मेरे/हमारे खाता के जुड़े खातों/जमाओं से संबंधित DBS Bank India Limited की वेबसाइट पर उपलब्ध टैरिफ अनुसूचियों, निगमों और शर्तों को, खाते और खाते के सभी उत्पादों और/समाप्त, खातों/जमाओं के संचालन/आवरण से संबंधित और सामान्य बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ATM/Debit Cards, ऑनर्रेटिव बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े बैंक के टैरिफ (जिन्हें सामूहिक रूप से "टैक बैंकिंग सुविधाएं" कहा जाता है) सहित लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं को पढ़ और समझ लिया है और उन तथा समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य नियमों से बाध्य होने और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं/हम एक टैक बैंकिंग सुविधाओं के लिए लागू प्रमाणों/प्रमाणों से अग्रगत हूँ। मैं/हम एतद्वारा एक समीक्षा बैंकिंग सुविधाओं के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध समय-समय पर लागू संशोधित नियमों और शर्तों और प्रमाणों/टैरिफ से बाध्य होने के लिए सहमत हूँ। एक बैंकिंग सुविधाओं के लिए नियमों और शर्तों मेरे/हमारे खाते (खातों) के संचालन से संबंधित नियमों और शर्तों के अतिरिक्त होंगी और उनका उल्लंघन नहीं करेगी। मैं/हम एतद्वारा DBS Bank India Limited की एतद्वारा उपलब्ध कराए गए मेरे/हमारे किसी भी या सभी डेटा और जानकारी, व्यक्तिगत डेटा या मेरे/हमारे खाते से संबंधित कोई भी डेटा या जानकारी सहित (खाता स्ट्रेटमेंट, लेनदेन, विवरण, जमाओं, KYC जानकारी आदि सहित) क्रेडिट व्यूरो/क्रेडिट सूचना कंपनियों/निगमक प्राधिकरणों/सांख्यिक निगमों/वित्तीय संस्थानों/व्यापिक या अन्य-व्यापिक प्राधिकरणों/सरकारी प्राधिकरणों/बैंक के तौर पर या सेवा प्रदाताओं/ऐसे अन्य व्यक्तियों से आदान-प्रदान या साझा करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं, ताकि बैंक विभिन्न लागू कानूनों, विनियमों और मानकों के तहत अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके, और भुझे/हमारे डेटा और सेवाएं प्रदान कर सके। मैं/हम उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मेरे/हमारे डेटा और जानकारी का उपयोग करने या साझा करने के लिए DBS Bank India Limited को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे। मैं/हम एतद्वारा पत्रिक और घोषणा करते हैं कि यहां प्रदान किया गया डेटा और जानकारी सभी महत्वपूर्ण में सच, सही, संपूर्ण और अप-टू-डेट है और मैंने/हमने किसी भी जानकारी को छुपाया/बदलाया नहीं है। मैं/हम सहमत हूँ और समझते हैं कि हमारे द्वारा दी गई कोई भी गलत जानकारी या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाना/बदलना मेरे/हमारे खाते को निलंबित या बंद करने और आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर देगा। मैं/हम अपने संचार पते/मोबाइल नंबर में कोई भी बदलाव होने पर उसके संबंध में उचित प्रमाणों के साथ, जैसा कि बैंक द्वारा अपेक्षित हो, हर समय बैंक को सूचित करने और एतद्वारा बैंक को मेरे संचार विवरण में मेरे/हमारे द्वारा सूचित किसी भी बदलाव को अपडेट करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं। मैं/हम बैंक को संचार के लिए सही संचार विवरण के साथ संचारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मैं/हम एतद्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग, DBS Bank India Limited को गलत संचार विवरण प्रदान करने में या संचार विवरण में बदलाव या संशोधन को स्वीकार करने में मेरी/हमारी गलती या फिलहाल के कारण बैंक द्वारा किसी भी गलती/घोषाविका या उससे उत्पन्न DBS Bank India Limited को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का वचन देते हैं। मैं/हम एतद्वारा बैंक को पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से संचार करने और निर्देशों पर कार्रवाई करने के लिए (जहां भी बैंक द्वारा अनुमति दी गई है) अधिकृत करता हूँ/करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि ईमेल संचार का एक सुरक्षित या जुटे मुक्त माध्यम नहीं है और ईमेल के माध्यम से सूचना के प्रसारण में संभावित जोखिम शामिल हैं। मैं/हम एतद्वारा किसी भी और सभी कानूनीबाधियों, धाराएं, मॉर्ग, मुकदमों, लागतों, प्रमाणों, क्षतिपूर्तियों, क्षतिपूर्तियों, और खर्चों के लिए, जो मेरे/हमारे द्वारा भेजे गए या कथित रूप से भेजे गए किसी भी फॉक्स या इलेक्ट्रॉनिक संदेश सहित किसी भी संदेश पर बैंक द्वारा कार्रवाई के कारण, बैंक को किसी भी कारण से उठाना या भुगतान या वहन करने के लिए जिम्मेदार हूँ/करते हैं, बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति रखने और क्षतिपूर्ति करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

तीसरा आवेदक के हस्ताक्षर

(व्यक्ति / HUF / एकल स्वामित्व / साझेदारी)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. हम, DBS Bank India Limited (DBS), भारत में निगमित एग्रीबैंकिंग कंपनी हैं। कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं और, कुछ तीसरे पक्ष के उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग व वितरण और/संदर्भ प्रदान करते हैं।</p> <p>2. DBS Bank India Limited के प्रतिनिधि जिन्होंने आपसे संपर्क किया है, उत्पाद प्रदाताओं की हमारी सूची में से आपके लिए उत्पादों को चुनने के लिए अधिकृत हैं।</p> <p>3. हमने विपिन तृतीय पक्ष उत्पाद प्रदाताओं के साथ एक संविदात्मक व्यवस्था बनाया है। उन उत्पाद प्रदाताओं की सूची के लिए, कृपया अपने रिलेशनशिप प्रबंधक/सेवा प्रबंधक से संपर्क करें।</p> <p>4. इस फॉर्म में आप जो जानकारी प्रदान करते हैं, वह आपके विचार के लिए निवेश उत्पादों को चुनने का आधार बनेगी। यदि आप वित्तीय आवश्यकता विश्लेषण प्रक्रिया में पूरी और सटीक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, तो कोई भी उत्पाद जिसे चुना गया है वह आपके आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।</p> <p>5. रक्षियों को प्रकट करना: हम उत्पाद प्रदाताओं के उत्पादों का आपको विपणन, वितरण और संदर्भ देने या विक्री के लिए उनसे</p> | <p>विपिन शुल्क, पारिस्थितिक या लाभ (कोमोशन)/ट्रेडर शुल्क/प्रोत्साहन राशि सहित) आपका कर सकते हैं। हम और हमारे सहयोगी (निदेशकों और/या कर्मचारियों सहित) उत्पाद प्रदाताओं को दलाती, निवेश बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर या प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं।</p> <p>6. सीमाएं: हमारा आपका सुझाव है कि आप अपने वित्तीय उद्देश्यों और स्थिति की नियमित (कम से कम वार्षिक) जांच आपकी समीक्षा करें। स्थिति और/या व्यक्तिगत परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव के कारण आवश्यकता हो तब समीक्षा करें। कृपया अपना रिस्कॉर्ड अपडेट करने के लिए हमारे प्रतिनिधि को सूचित करें ताकि सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास हर समय आपकी अपडेट की गई जानकारी है।</p> <p>7. अगर लेनदेन करने के बाद आपको कोई प्रश्न पृष्ठना है, तो आप निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अपने रिलेशनशिप प्रबंधक से</li> <li>● हमारे ग्राहक सेवा प्रबंधक से</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

शाखा का नाम:  प्रस्तुत करने का दिनांक:

[illegible]

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मौजूदा खाताधारक- CIF यदि कोई हो |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * नमस्कार                       | <input type="checkbox"/> श्री <input type="checkbox"/> श्रीमती <input type="checkbox"/> कुमारी <input type="checkbox"/> डॉ <input type="checkbox"/> प्रोफेसर <input type="checkbox"/> अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)                                                                    |
| * नाम (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार)  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <input type="text"/> पहला नाम         </div> <div style="width: 33%;"> <input type="text"/> मध्य नाम         </div> <div style="width: 33%;"> <input type="text"/> उनाम         </div> </div> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मौजूदा खाताधारक- CIF यदि कोई हो : |                                                                                                                                                                                                                   |
| * नमस्कार :                       | <input type="checkbox"/> श्री <input type="checkbox"/> श्रीमती <input type="checkbox"/> कुमारी <input type="checkbox"/> डॉ <input type="checkbox"/> प्रोफेसर <input type="checkbox"/> अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) |
| * नाम (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार) :  | <input type="text"/> पहला नाम <input type="text"/> मध्य नाम <input type="text"/> उ नाम                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |         |         |         |         |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | आज संबोधित किए गए वित्तीय लक्ष्यों के लिए, आप कितने समय तक निवेश बनाए रख सकते हैं?                                                                                                                                                     | स्कोर A                              | स्कोर B   | स्कोर A | स्कोर B | स्कोर A | स्कोर B | स्कोर A | स्कोर B |
|    | A. 1 वर्ष से कम                                                                                                                                                                                                                        | 5                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | B. 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक                                                                                                                                                                                                           | 6                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | C. 3 से 7 वर्ष तक                                                                                                                                                                                                                      | 7                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | D. 7 वर्ष से अधिक                                                                                                                                                                                                                      | 8                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
| 2. | आपने पहले किस प्रकार के उपकरणों में निवेश किया है या वर्तमान में निवेश किया है? (आप एक से अधिक को चुन सकते हैं)                                                                                                                        |                                      |           |         |         |         |         |         |         |
|    | A. - बचत खाते<br>- सावधि जमा                                                                                                                                                                                                           | लागू नहीं                            | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | B. - जीवन बीमा<br>- सामान्य बीमा                                                                                                                                                                                                       | लागू नहीं                            | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | C. - लिक्विड/मनी मार्केट फंड्स<br>- लघु अवधि के बांड<br>- ऋण/आय कोष<br>- कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स                                                                                                                              | लागू नहीं                            | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | D. इक्विटी फंड<br>शेयर<br>PMS                                                                                                                                                                                                          | लागू नहीं                            | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | E. - प्रिंसिपल या नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स (जैसे इक्विटी-लिक्विड डिबेंचर)<br>- मुद्रा/ब्याज दर की फ्यूचर्स ट्रेडिंग<br>- कमोडिटी ट्रेडिंग<br>- निजी शेयर<br>- ऑफ़सोर निवेश उत्पाद                                         | लागू नहीं                            | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | F. लीवरेज्ड निवेश उत्पाद                                                                                                                                                                                                               | लागू नहीं                            | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
| 3  | नीचे कौन सा विकल्प आपके निवेश ज्ञान और अनुभव का सटीक वर्णन कर सकता है?                                                                                                                                                                 |                                      |           |         |         |         |         |         |         |
|    | A. मेरे पास निवेश या बीमा का ज्ञान या अनुभव नहीं है                                                                                                                                                                                    | 5                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | B. न्यूनतम: मेरे पास निवेश या बीमा का सीमित ज्ञान या अनुभव है।                                                                                                                                                                         | 6                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | C. मॉडरेट: मुझे निम्नलिखित का ज्ञान या अनुभव है: स्टॉक, बॉन्ड/डेब्ट फंड, बैलेंस्ड फंड्स                                                                                                                                                | 7                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | D. अच्छा: स्टॉक, बॉन्ड/डेब्ट फंड, बैलेंस्ड फंड जैसे उत्पादों के अलावा, मुझे निम्नलिखित का भी ज्ञान या अनुभव है: इक्विटी फंड, फंड ऑफ़ फंड, PMS                                                                                          | 8                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | E. व्यापक: इक्विटी फंड, फंड ऑफ़ फंड, PMS, जैसे उत्पादों के अलावा मुझे निम्नलिखित का भी ज्ञान या अनुभव है: निजी इक्विटी फंड, मूल और गैर मूल संरक्षित संरचनाएं, ऑफ़सोर निवेश उत्पाद और लीवरेज्ड निवेश, कमोडिटी/मुद्रा और ब्याज दर वायदा। | 9                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
| 4  | नकारात्मक रिटर्न वाले वर्ष में कितना औसत संभावित पूंजी हानि आपको स्वीकार्य है?<br>उच्च रिटर्न का मतलब आम तौर पर अधिक जोखिम लेना होता है                                                                                                |                                      |           |         |         |         |         |         |         |
|    | A. 4% न्यूनतम पूंजी हानि                                                                                                                                                                                                               | 0                                    | 20        |         |         |         |         |         |         |
|    | B. 10% कम पूंजी हानि                                                                                                                                                                                                                   | 8                                    | 27        |         |         |         |         |         |         |
|    | C. 16% मध्यम पूंजी हानि                                                                                                                                                                                                                | 11                                   | 32        |         |         |         |         |         |         |
|    | D. 36% उच्च पूंजी हानि                                                                                                                                                                                                                 | 14                                   | 37        |         |         |         |         |         |         |
|    | E. > 36% महत्वपूर्ण पूंजी हानि                                                                                                                                                                                                         | 17                                   | 42        |         |         |         |         |         |         |
| 5  | मेरे समय नकदी प्रवाह और निवल मूल्य को ध्यान में रखते हुए, मैं अगले 12 महीनों में अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सुरक्षित महसूस करता हूँ।                                                                                              |                                      |           |         |         |         |         |         |         |
|    | A. मैं असहमत हूँ                                                                                                                                                                                                                       | 5                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | B. मैं कुछ हद तक सहमत हूँ                                                                                                                                                                                                              | 6                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | C. मैं सहमत हूँ                                                                                                                                                                                                                        | 7                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | D. मैं पूरी तरह सहमत हूँ                                                                                                                                                                                                               | 9                                    | लागू नहीं |         |         |         |         |         |         |
|    | कुल स्कोर                                                                                                                                                                                                                              | योग A                                | योग B     |         |         |         |         |         |         |
|    | अंतिम स्कोर                                                                                                                                                                                                                            | योग A और योग B में से जो स्वतंत्र हो |           |         |         |         |         |         |         |

**नोट:** रिस्क प्रोफाइलिंग फंड के मालिक पर की जाएगी। यदि मालिक एक से अधिक हैं, तो जोखिम प्रोफाइलिंग किसी भी एक मालिक पर की जा सकती है जिसे, आपके द्वारा चुना जाएगा। (कृपया ऊपर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें)

कृपया उपरोक्त उत्तरों के आधार पर अपना जोखिम प्रोफाइल चुनें

| जोखिम स्कोर रेंज                       | जोखिम प्रोफाइल | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 15 से 24 - C1 | रक्षात्मक      | - आपकी प्राथमिकता अपनी पूंजी की <b>रक्षा करना</b> है और आप <b>न्यूनतम जोखिम</b> स्वीकार करने को तैयार हैं। बदले में, आप समझते हैं कि आपको न्यूनतम या कम रिटर्न मिल सकता है।                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 25 से 29 - C2 | अपरिवर्तनशील   | - आपकी प्राथमिकता कुछ निवेश रिटर्न चाहते हुए अपनी निवेश पूंजी को बनाए रखना है।<br>- आप <b>कम</b> जोखिम वाले उत्पादों में, जिनकी संरचना सरल है, और जो अधिक अस्थिरता या कम तरलता से ग्रस्त नहीं हैं, निवेश करके अल्पकालिक जमा दरों से अधिक <b>सीमित</b> रिटर्न प्राप्त करना पसंद करेंगे।                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 30 से 34 - C3 | मध्यम          | - आपका लक्ष्य आय या पूंजी वृद्धि के माध्यम से मध्यम निवेश रिटर्न प्राप्त करना है, और आप मध्यम निवेश जोखिम लेने के इच्छुक हैं<br>- आप <b>मध्यम</b> जोखिम वाले उत्पादों में निवेश करने के इच्छुक हैं जो अधिक अस्थिरता या कम तरलता से ग्रस्त नहीं हैं।                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 35 से 39 - C4 | संतुलित        | - आपका लक्ष्य आय या पूंजी वृद्धि के माध्यम से, उच्च निवेश रिटर्न प्राप्त करना है, और उच्च निवेश जोखिम लेने के इच्छुक हैं।<br>- आप <b>अधिक अस्थिर</b> रिटर्न, <b>कम तरलता</b> , और मूल निवेश के कुछ हिस्से को खोने का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं।                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> 40 से 43 - C5 | गतिशील         | - आपका ध्यान <b>अवसरवादी तरीके</b> से बिना किसी बाधा के निवेश रिटर्न को अधिकतम करने पर है, और आप ऐसा करने के लिए <b>उच्च स्तर का निवेश जोखिम</b> लेने के इच्छुक हैं।<br>- आप उच्च प्रत्याशित रिटर्न वाले जटिल या जोखिम वाले उत्पाद में, लेकिन जिनमें नुकसान का अधिक जोखिम भी है निवेश करने में सहज हैं, और आप अपनी सारी पूंजी का जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। |

| जोखिम प्रोफाइल कैपिंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |                                           |                                              |                                             |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के समग्र मूल्यांकन के हिस्से के रूप में समग्र जोखिम प्रोफाइलिंग प्रश्नावली (RPQ) स्कोरिंग की कैपिंग, RPQ4 के लिए आपके द्वारा चुनी गई प्रतिक्रियाएं (औसत पूंजी संभावित हानि की प्रासंगिकता) अस्थिर रिटर्न, कम तरलता, और समग्र स्कोर के सामने, ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के समग्र परिणाम को आंशिक रूप से खोने या निर्धारित होने की संभावना, जो भी कम हो, निम्नानुसार है: | RPQ4 के लिए चुनाव                | कैपड रिस्क प्रोफाइल              |                                           |                                              |                                             |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4% न्यूनतम पूंजी हानि            | C1 पर कैपड — रक्षात्मक           |                                           |                                              |                                             |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10% कम पूंजी हानि                | C2 पर कैपड — अपरिवर्तनशील        |                                           |                                              |                                             |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16% मध्यम पूंजी हानि             | C3 पर कैपड — मध्यम               |                                           |                                              |                                             |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36% उच्च पूंजी हानि              | C4 पर कैपड — संतुलित             |                                           |                                              |                                             |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | > 36% महत्वपूर्ण पूंजी हानि      | C5 पर कैपड — गतिशील              |                                           |                                              |                                             |                                              |
| इस निवेश के फंड का मालिक कौन है? (आप एक से अधिक चुन सकते हैं)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> आवेदक 1 | <input type="checkbox"/> आवेदक 2 | <input type="checkbox"/> आवेदक 3          |                                              |                                             |                                              |
| जोखिम प्रोफाइलिंग प्रश्नावली इस पर की जानी है:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> आवेदक 1 | <input type="checkbox"/> आवेदक 2 | <input type="checkbox"/> आवेदक 3          |                                              |                                             |                                              |
| खाता खोलने का उद्देश्य और कारण:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> बचत     | <input type="checkbox"/> वृद्धि  | <input type="checkbox"/> परिवार का रखरखाव | <input type="checkbox"/> अन्य _____          |                                             |                                              |
| संचालन का तरीका: # निवेश के लिए लागू:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                | <input type="checkbox"/> एकल     | <input type="checkbox"/> संयुक्त          | <input type="checkbox"/> कोई एक या उत्तरजीवी | <input type="checkbox"/> पूर्व या उत्तरजीवी | <input type="checkbox"/> कोई भी या उत्तरजीवी |
| घरेलू संबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                | <input type="checkbox"/> हाँ     | <input type="checkbox"/> नहीं             | यदि हाँ, तो संबंध का नाम: _____              |                                             |                                              |
| वित्तीय प्रोफाइलिंग ग्राहक संख्या:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | <input type="text"/>             | <input type="text"/>                      | <input type="text"/>                         | <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                         |

ग्राहक द्वारा घोषणा और वारंटी

सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य: **(केवल ग्राहक द्वारा भरा जाना है)**

☐ मैंने/ हमने वित्तीय प्रोफाइलिंग फॉर्म स्वयं भरा है। कोई भी प्रश्न जिससे मैं/ हम अपरिचित हो सकते थे, आपके प्रतिनिधि ने मुझे/ हमें उसका अर्थ समझा दिया है। **या**

☐ आपके प्रतिनिधि ने मेरे/ हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके मेरी/ हमारी ओर से फॉर्म को पूरा किया है। मैं/ हम स्वीकार करते हैं कि भरे हुए फॉर्म की मेरे द्वारा जांच की गई है और यह मेरे/ हमारी प्रतिक्रिया के अनुसार है।

संयुक्त निवेश के लिए अनिवार्य: **(केवल ग्राहक द्वारा पूरा किया जाना है)**

☐ हम \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ घोषणा करते हैं कि \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ फंड के मालिक है/ हैं और पुष्टि करते हैं कि वित्तीय प्रोफाइलिंग फंड के मालिक (ओं) पर की गई है। हम खाते के किसी भी संयुक्त धारक (धारकों) को हमारे लिए और हमारी ओर से किसी भी लेनदेन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करते हैं और हम पुष्टि करते हैं कि किसी भी संयुक्त धारक (धारकों) द्वारा ऐसा कोई भी निष्पादन हमारे लिए बाध्यकारी होगा। हम वचन देते हैं कि यदि लेन—देन फॉर्म (हस्ताक्षरकर्ता) पर हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त धारक को प्रोफाइल नहीं किया गया है, तो फंड के मालिक हस्ताक्षरकर्ता के साथ लेनदेन पर चर्चा करेंगे और उसे लेनदेन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करेंगे। मैं/ हम DBS Bank India Limited से बैंक में जमा फॉर्म में उल्लिखित नाम (नामों) से इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों पर वित्तीय प्रोफाइलिंग सेवाएं शुरू करने का अनुरोध करते हैं। वित्तीय प्रोफाइलिंग सेवाएं विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए शुरू की जा रही हैं। मैं/ हम समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि उत्पादों के मूल्य में उतार—चढ़ाव हो सकता है और पिछला प्रदर्शन भविष्य में प्रदर्शन का संकेत नहीं हो सकता है।

मैं/ हम स्वीकार करते हैं कि मैं/ हम निम्नलिखित को समझते हैं:

- किसी भी निवेश उत्पाद में निवेश करने का निर्णय लेने से पहले, मैं/ हम सुनिश्चित करेंगे कि मैं/ हम निवेश उत्पाद (उत्पादों) की विशेषताओं, उस उत्पाद (उत्पादों) में निवेश में शामिल लाभों और जोखिमों को समझते हैं, और मेरी/ हमारी जोखिम उठाने की क्षमता, वित्तीय साधनों और निवेश के उद्देश्यों के लिए उत्पाद (उत्पादों) की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेंगे। अन्यथा, मैं/ हम निवेश उत्पाद (उत्पादों) में निवेश नहीं करेंगे। अगर मैं/ हम फिर भी ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं/ हम सुनिश्चित करेंगे कि मैंने/ हमने इन उत्पादों में निवेश करने से पहले उपयुक्त मामलों पर प्रासंगिक स्वतंत्र पेशेवर सलाह प्राप्त कर लिया है।
- मैं/ हम समझते हैं कि DBS Bank India Limited के पास किसी भी व्यक्ति को किसी भी उत्पाद की बिक्री, रेफरल या वितरण को अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार है, जबकि DBS Bank India Limited के पास उत्पादों की बिक्री, रेफरल या वितरण से संबंधित अपने आंतरिक दिशानिर्देश हैं, निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, वित्तीय साधनों और निवेश उद्देश्यों के लिए उत्पाद (उत्पादों) की उपयुक्तता का आकलन करना चाहिए। निवेशकों को अपने निवेश निर्णय के लिए, पूरी तरह से या अन्यथा, बिक्री, रेफरल या वितरण से संबंधित DBS Bank India Limited के आंतरिक दिशानिर्देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
- मैं/ हम पुष्टि करते हैं कि नियमों और शर्तों में बैंक द्वारा एकल/ प्रथम आवेदक को समय—समय पर सूचित किए जाने वाले किसी भी संशोधन और परिवर्धन को पढ़ने और समझने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। संयुक्त आवेदकों के मामले में, सभी आवेदक संयुक्त रूप से और अलग—अलग बाध्य होंगे।
- मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि आवेदक (आवेदकों) के रिलेशनशिप रिकॉर्ड में सभी विवरण सत्य और सही हैं और बैंक को आवेदक (ओं) की ओर से कारोबार करने के लिए दिया गया कोई भी निर्देश समय—समय पर लागू हो सकने वाले कानूनों के अनुरूप होगा।
- मैं/ हम बैंक द्वारा मुझे पेश किए गए उत्पादों का अध्ययन करेंगे और बैंक द्वारा चुने गए उत्पादों में निवेश करने से पहले यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य पेशेवर से परामर्श लेंगे। बैंक पूंजी की सुरक्षा या बैंक के साथ वित्तीय उत्पादों में निवेश के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। बैंक की वित्तीय प्रोफाइलिंग प्रक्रिया मेरे निवेश में सहायता करने के लिए केवल एक सलाह भर है और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय उत्पादों के प्रदर्शन और रिटर्न पर कोई प्रतिबद्धता उत्पन्न नहीं होती है।
- विशिष्ट लेनदेन करते समय, मैं/ हम बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले बीमा उत्पादों/ अन्य रेफरल उत्पादों के लिए विभिन्न म्यूचुअल फंडों की और संबंधित भागीदारों द्वारा विभिन्न प्रतिस्पर्धी योजनाओं के लिए AMC द्वारा बैंक को देय नवीनतम कमीशन संरचना की बैंक की वेबसाइट [www.dbs.com/in](http://www.dbs.com/in) से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, मैं/ हम समझते हैं कि DBS Bank India Limited के पास अपने वैनल या रेफरल या उत्पाद भागीदारों के साथ क्लाइंट रेफरल के लिए आया साझा करने की अलग—अलग व्यवस्था है।
- प्राथमिक और/ या द्वितीय बाजार में अंतर्निहित बॉन्ड, स्टॉक और इक्विटी लिक्विड की खरीद और बिक्री में रुचि रखने वाले ग्राहकों के लिए, DBS Bank India Limited ग्राहकों को अपने रेफरल पार्टनर के पास भेज देता है। DBS Bank India Limited ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पाद की उपयुक्तता और/ या बांड, स्टॉक और/ या प्रतिभूतियों की गुणवत्ता और/ या अपने रेफरल भागीदारों द्वारा प्रदान की गई सलाह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और ग्राहक को निवेश करने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
- नीचे हस्ताक्षर करके, मैं एतद्वारा DBS Bank India Limited (बैंक) की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के लिए आवेदन कर रहा हूँ जो बैंक द्वारा समय—समय पर मुझे उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसके अलावा मैं स्वीकार करता हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का मेरे द्वारा उपयोग बैंक के प्रचलित इंटरनेट बैंकिंग नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा (जिसकी प्रतियाँ भारत में बैंक की किसी भी शाखा में और बैंक की वेबसाइट [www.dbsbank.in](http://www.dbsbank.in) पर उपलब्ध हैं) और मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने उक्त नियम और शर्तों को पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया है और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं सहमत हूँ और समझता हूँ कि बैंक बिना कोई कारण बताए इंटरनेट बैंकिंग के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मैं बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार अपने पते पर इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं तक मेरी पहुंच के संबंध में अपनी इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड (सामूहिक रूप से "सुरक्षा कोड") को मेल/ कूरियर करने के लिए बैंक को निर्देश दे रहा हूँ और प्राधिकृत करता हूँ और मैं सहमत हूँ कि सुरक्षा कोड प्राप्त न होने और/ या किसी अनधिकृत तृतीय पक्ष को प्रकट हो जाने का जोखिम पूरी तरह से मेरे द्वारा वहन किया जाएगा। मैं पुष्टि करता हूँ और सहमत हूँ कि सुरक्षा कोड प्राप्त न होने और/ या किसी अनधिकृत तृतीय पक्ष को प्रकट हो जाने के परिणामस्वरूप मुझे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। मैं सहमत हूँ कि यदि बैंक में मेरे कई खाते हैं (जहां उनके संचालन का तरीका एकल/ कोई एक या उत्तरजीवी/ कोई भी या उत्तरजीवी है) तो वे सभी खाते स्वचालित रूप से मेरी यूजर आईडी से जुड़ जाएंगे।
- मैं/ हम उपरोक्त खाते के लामार्थी स्वामी और अंततः स्वामी हूँ या उस पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं।
- मैं समझता हूँ/ हम समझते हैं कि प्रतिभूतियों पर ऋण (LAS) प्राप्त करने में रुचि रखने वाले ग्राहकों को, DBS Bank India Limited (बैंक) तीसरे पक्ष के उत्पाद प्रदाता के पास भेज देता है। मैं/ हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/ करते हैं कि मैं/ हम एतद्वारा LAS के लिए DBS Bank India Limited या उसके कर्मचारियों द्वारा मुझसे/ हमसे किसी भी प्रकार के आग्रह या प्रलोभन के बिना तीसरे पक्ष के उत्पाद प्रदाता से संपर्क कर रहे हैं। मैं/ हम समझते हैं कि DBS Bank India Limited तीसरे पक्ष के उत्पाद प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सलाह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है और मैं/ हम इस सुविधा का लाभ उठाने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लेना सुनिश्चित करेंगे और यह भी जानते हैं कि DBS Bank India Limited रेफरल शुरू वसूल करता है जिसमें समय—समय पर बदलाव हो सकता है।
- मैं/ हम एतद्वारा ऊपर उल्लिखित मेरे विवरण केंद्रीय KYC रजिस्ट्री से साझा करने की मेरी/ हमारी सहमति प्रदान करते हैं। मैं एतद्वारा केंद्रीय KYC रजिस्ट्री से एसएमएस/ ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की सहमति देता हूँ।

|                                                            |                                                            |                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div>हस्ताक्षर</div> <div>CIF 1 <input type="text"/></div> | <div>हस्ताक्षर</div> <div>CIF 2 <input type="text"/></div> | <div>हस्ताक्षर</div> <div>CIF 3 <input type="text"/></div> | दिनांक: <input type="text"/> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|

☐ मैंने व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त नामित आवेदक से मुलाकात की थी और उसकी पहचान और फोटो का सत्यापन किया था और एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने ऊपर हस्ताक्षर मेरे सामने किया था। मैं अपने द्वारा किए गए सत्यापन के परिणामों को समझता हूँ।

RM का हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_ RM का नाम : \_\_\_\_\_ RM का कोड : \_\_\_\_\_

☐ मुझे पता है कि यह फॉर्म बैंक के प्रतिनिधि द्वारा भरा गया है। मैंने हस्ताक्षर करने से पहले फॉर्म में भरी गई जानकारी की जांच कर लिया है।

ARN-155319

EUIN

दिनांक: DDMMYYYY

शाखा का नाम और कोड

श्रेणी: ☐ निवासी व्यक्ति ☐ HUF ☐ सोल प्रोप्रायटरशिप ☐ कंपनी ☐ अन्य

मैं/हम DBS Bank India Limited द्वारा दी जाने वाली निवेश सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं मैं/हम एतद्वारा निवेश सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना/हमारा विवरण प्रदान करते हैं।

|                                                                    | पहला आवेदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दूसरा आवेदक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाम (श्री/सुश्री)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जन्म का दिनांक                                                     | DDMMYYYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DDMMYYYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAN संख्या                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KYC अनुपालन                                                        | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KYC संख्या                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निवास संख्या                                                       | STD कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STD कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कार्यालय संख्या                                                    | STD कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STD कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| फैक्स संख्या                                                       | STD कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STD कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मोबाइल नंबर                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ईमेल पता                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| राष्ट्रीयता                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जन्म का स्थान                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जन्म का देश                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निवास का देश                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निवास का पता                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शहर                                                                | पिन कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पिन कोड                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पिन कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कार्यालय का पता                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शहर                                                                | पिन कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पिन कोड                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पिन कोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| संचार विकल्प                                                       | <input type="checkbox"/> निवास स्थान <input type="checkbox"/> कार्यालय                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> कार्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| व्यवसाय                                                            | <input type="checkbox"/> सेवा <input type="checkbox"/> विद्यार्थी <input type="checkbox"/> पेशेवर <input type="checkbox"/> गृहिणी<br><input type="checkbox"/> व्यवसाय <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> प्रोपराइटरशिप<br><input type="checkbox"/> अन्य (कृपया विवरण दें) | <input type="checkbox"/> सेवा <input type="checkbox"/> विद्यार्थी <input type="checkbox"/> पेशेवर <input type="checkbox"/> गृहिणी<br><input type="checkbox"/> व्यवसाय <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> प्रोपराइटरशिप<br><input type="checkbox"/> अन्य (कृपया विवरण दें) |
| स्थिति                                                             | <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> NRI <input type="checkbox"/> PIO/OCI <input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें)                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> NRI <input type="checkbox"/> PIO/OCI <input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें)                                                                                                                                                                                    |
| निवल मूल्य<br>(1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)              | रुपये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रुपये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| निवल मूल्य दिनांक                                                  | DDMMYYYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DDMMYYYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कर निवास का देश/क्षेत्र                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कर संदर्भ संख्या<br>* अनिवार्य जहां कर निवास भारत के अलावा अन्य है |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

सकल वार्षिक आय : पहला आवेदक

दूसरा आवेदक

☐ 1 लाख रुपये से कम ☐ 1-5 लाख रुपये ☐ 5-15 लाख रुपये ☐ >15 लाख रुपये से अधिक

☐ 1 लाख रुपये से कम ☐ 1-5 लाख रुपये ☐ 5-15 लाख रुपये ☐ >15 लाख रुपये से अधिक

होल्डिंग का तरीका (निवेश का)

होल्डिंग का तरीका: ☐ एकल ☐ कोई भी या उत्तरजीवी

संलग्न दस्तावेज [कृपया सही का निशान लगाएं (✓)]

☐ PAN प्रमाण\* ☐ MF KYC अनुपालन स्थिति प्रमाण\*

घोषणा (ए) [कृपया सही का निशान लगाएं (✓)]

नोट: यदि आप MF KYC का अनुपालन नहीं करते हैं तो कृपया MF KYC फॉर्म भरें।  
जिन फील्ड में (\*) अंकित है वे अनिवार्य हैं

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि इस निवेश सेवा फॉर्म में मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी और विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं/हम इस फॉर्म में या इस फॉर्म के अनुलग्नक (यदि कोई हो) में दी गई किसी भी जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर तुरंत बैंक को सूचित करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम यह भी घोषित करते हैं और सहमत हैं कि यदि उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत या झूठा या कोई जानकारी या विवरण छुपाया गया या हटा दिया गया पाया जाता है, तो DBS Bank India Limited को निवेश सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार है। मैं/हम सहमत हैं और घोषणा करते हैं कि कोई भी और सभी कर देयता एकमात्र मेरी/हमारी जिम्मेदारी होगी। मैं/हम इसके संबंध में बैंक/AMFI/SEBI द्वारा अनुरोध की गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। मैं/हम ऐसे अन्य दस्तावेजों को भी निष्पादित करने और बैंक को वितरित करने का वचन देता हूँ/देते हैं जो बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं या अनुपालन या रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए मुझसे/हम से आवश्यक हो सकते हैं। मैं/हम सहमत हैं कि यदि मैं/हम मांगी गई जानकारी या दस्तावेज देने में विफल रहते हैं, तो आपको निवेश सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा।

मैं/हम निवेश सेवाओं को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों और शर्तों, कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा DBS Bank India Limited के माध्यम से (वाहे आईबीएफिंग के माध्यम से या वित्तीय लेनदेन फॉर्म के माध्यम से जैसा भी मामला हो) योजना(याँ) में निवेश की गई/निवेश की जाने वाली राशि वैध स्रोतों के माध्यम से प्राप्त की गई है और किसी अधिनियम, नियम, विनियम या किसी कानून या कानूनी विधान या किसी सरकारी या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किसी अधिसूचना, निर्देशों के उल्लंघन के उद्देश्य से आयोजित या डिज़ाइन नहीं की गई है।

☐ मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि SEBI/स्टॉक एक्सचेंज या किसी प्राधिकरण द्वारा प्रतिभूति कानून के उल्लंघन या अन्य आर्थिक अपराधों के लिए मेरे/हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

☐ मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा किसी ऐसे निगमित निकाय में निवेश/हित नहीं है जो मुझे/हमें मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

स्थान

दिनांक: DDMMYY



केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

RM/शाखा कर्मचारी/SO का नाम: \_\_\_\_\_ कर्मचारी कोड: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

बैंक आईडी: \_\_\_\_\_ रेफरल/प्रोमोकोड: \_\_\_\_\_ दिनांक 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                           |                                |                    |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ग्राहक सेवा प्रबंधक (CSM) | खाता खोलने के लिए अधिकृत कर्ता | टियर आईडी          |
| नाम: _____                | नाम: _____                     | पहला आवेदक: _____  |
| CSM का कोड: _____         |                                | दूसरा आवेदक: _____ |
| CSM का हस्ताक्षर: _____   | हस्ताक्षर: _____               | तीसरा आवेदक: _____ |

स्टाफ संकेतक ☐ हां ☐ नहीं      स्टाफ कर्मचारी आईडी \_\_\_\_\_      स्टाफ पदनाम \_\_\_\_\_

[illegible]

LOTUS-CPU उपयोग के लिए

(लेखापरीक्षा कर्ता) हस्ताक्षर एवं दिनांक